



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 आश्विन 1936 (श0)  
(सं0 पटना 879) पटना, बुधवार, 22 अक्टूबर 2014

---

सं0 से0क0नि0/21/13/2014—1134

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

संकल्प

16 अक्टूबर 2014

विषय:—दिनांक 25.8.2014 को जेनरल एरिया, बारन गली, जिला—कुपवाड़ा (जम्मू एवं काश्मीर) में खोज अभियान के दौरान आतंकवादियों के फायरिंग से शहीदोपरांत आर्मी नं0 14444631 एम0 लांस नायक (जी0 डी0) धनन्जय कुमार के आश्रित पत्नी श्रीमती रीना कुमारी को 10,00,000/—रु0 (दस लाख रुपये) अनुग्रह अनुदान देने के संबंध में।

मुख्यालय, झारखण्ड एवं बिहार सब एरिया, दानापुर कैंन्ट द्वारा दिनांक 27.8.2014 को यह सूचना दी गई है कि दिनांक 25.8.2014 को जेनरल एरिया, बारन गली, जिला—कुपवाड़ा (जम्मू एवं काश्मीर) में खोज अभियान के दौरान आतंकवादियों के फायरिंग से बिहार निवासी लांस नायक (जी0 डी0) धनन्जय कुमार (आर्मी नं0 14444631 एम0), ग्राम—सुअरमरवा, पोस्ट—पतीला, तहसील—दानापुर, थाना—मनेर, जिला—पटना जो 28 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन (जम्मू एवं काश्मीर) में तैनात थे, शहीद हुए हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा इस घटना में शहीद जवान नं0 14444631 एम0 शहीद लांस नायक धनन्जय कुमार के निकटतम आश्रित पत्नी श्रीमती रीना कुमारी, ग्राम—सुअरमरवा, पोस्ट—पतीला, तहसील—दानापुर, थाना—मनेर, जिला—पटना को 10,00,000/—रु0 (दस लाख रुपये) विशेष परिस्थिति में अनुग्रह अनुदान राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है।

3. यह स्वीकृति स्थिति की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के फलस्वरूप बिल्कुल अपवाद स्वरूप होगी और यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा।

4. उक्त राशि का विकलन आय व्ययक मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय उप शीर्ष-0002 स्थल, जल एवं वायु सैनिकों का पर्षद-मुख्यालय प्रभार मॉग संख्या 22 विपत्र कोड-एन 2052000920002 एवं ईकाई शीर्ष 31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद के अन्तर्गत भुगतान वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार आकस्मिकता निधि से राशि उपबंध कराकर किया जायेगा। उक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011/सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, वेस्ट ब्लॉक-IV, विंग नं०-VII, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066/निदेशक, सैनिक कल्याण निदेशालय/सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को अग्रसारित की जाये।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
आमिर सुबहानी,  
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 879-571+200-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>